

# **PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA VF (SHIFT-1) JABALPUR**

**DATE- 25.06.2026**


There are a few vacancies available for Classes 10 and 12 at Kendriya Vidyalaya Vehicle Factory Jabalpur (Shift 1), Jabalpur.

Interested parents can download the form from the website and submit the form along with following documents.

**Latest by 29.06.2026 (TIME 12.30 PM TO 2.30 PM)**

- 1. Registration form with photograph**
- 2. Date of birth Certificate of the child**
- 3. Service Certificate of the Father/Mother**
- 4. Salary Slip**
- 5. Aadhar of the Child, Mother & Father**
- 6. Blood group of the Child**
- 7. Download the form from school website.**
- 8. Photocopies of 9/11 class Marksheet**

Website of school: - <https://vfjabalpur.kvs.ac.in/>

  
**Principal**

प्राचार्य / Principal  
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya  
वाहन निर्माणी / Vehicle Factory  
जबलपुर (म.प्र.) / Jabalpur (M.P.)





केन्द्रीय विद्यालय

सम्भाग

Kendriya Vidyalaya

Region

शैक्षिक सत्र/ Academic Session : 2026-27

## प्रवेश पंजीकरण-प्रपत्र/ REGISTRATION FORM

Class:

Registration No. :

Paste Latest  
Passport Size  
Photograph of  
the Child

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में) : .....  
Name of the Child (In Capital Letters) : .....
2. लिंग/Gender : पुरुष/Male ( ) स्त्री/Female ( ) तृतीय लिंग/Third Gender ( )
3. जन्म-तिथि / Date of Birth : .....  
(अंकों में/In figures) : दिन/Day   मास/Month   वर्ष/Year      
(शब्दों में/In words) : .....
4. 31.03.2026 तक आयु/Age as on 31.03.2026: वर्ष/Year   मास/Month   दिन/Day    
(01.04.2026 को भी स्वीकार किया जाएगा/ 01.04.2026 will also be considered)
5. बच्चे का रक्त समूह (आर एच फैक्टर सहित)/Blood Group of the Child (With RH Factor):
6. बच्चे की संबंधित श्रेणी : 

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gen                  | SC                   | ST                   | OBC-CL               | OBC-NCL              | EWS                  | BPL                  | CwSN                 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

  
Category of the Child :
7. यूडाइज़ पैन (स्थायी शिक्षा संख्या)/UDISE PEN (Permanent Education Number), (if available):.....
8. अपार आईडी (उपलब्ध होने पर)/ APAAR ID (if available):.....
9. आधार नंबर (उपलब्ध होने पर)/Aadhar Number (If available): .....
10. माता-पिता का विवरण/ Details of Mother & Father:

| क्र. सं.<br>S.N. | विवरण/Particulars                                                                                                                                               | माता/Mother | पिता/Father |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| i.               | नाम (स्पष्ट शब्दों में)<br>Name in CAPITAL Letters                                                                                                              | :<br>:      | :<br>:      |
| ii.              | राष्ट्रियता/ Nationality                                                                                                                                        | :           | :           |
| iii.             | व्यवसाय /Occupation                                                                                                                                             | :           | :           |
| iv.              | कार्यालय का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष<br>Name of Office, Full Address<br>& Telephone Number                                                                      | :           | :           |
| v.               | पूर्ण आवासीय पता एवं दूरभाष<br>Full Address & Telephone No.                                                                                                     | :           | :           |
| vi.              | विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)<br>Distance from the Vidyalaya (In K.M.)                                                                                          | :           | :           |
| vii.             | वार्षिक आय /Annual Income                                                                                                                                       | :           | :           |
| viii.            | पिछले सात वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या<br>No. of Transfers during last 07 years<br>(As on 31.03.2026)                                                      | :           | :           |
| ix.              | माता-पिता की सेवा श्रेणी (केविस के प्रवेश दिशा-<br>निर्देशिका 2026-27 के अनुसार)<br>Service Category of the Parent (As per<br>KVS Admission Guidelines 2026-27) | :           | :           |
| x.               | कर्मचारी कोड (यदि है तो)/Emp. Code (If any)                                                                                                                     | :           | :           |
| xi.              | ई-मेल आई डी /e-Mail ID                                                                                                                                          | :           | :           |

अभिभावक के हस्ताक्षर/Sign. of Guardian

दिनांक/Date:

पृष्ठ संख्या/Page 1 of 4

## स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/ CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं, .....(नाम) .....(पदनाम).....(कार्यालय),  
एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि पिछले सात वर्षों में (31.03.2026 तक) मैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे .....  
.....(अंकों व शब्दों में) स्थानांतरण हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

I,.....(Name).....(Designation).....  
(Office), do hereby certify that during the past 07 years (Up to 31.03.2026), I have been  
transferred..... times (in figures, and in words) from one station to another,  
the details of which are as under:

| क्र. सं.<br>S.N. | कार्यालय/यूनिट<br>Office/Unit | स्थान<br>Place | रैंक/पदनाम<br>Rank/Designation | दिनांक/Date<br>Period of Stay |       | ठहरने की अवधि<br>Period of Stay | स्थानान्तरण<br>आदेश संख्या<br>Transfer<br>Order No. |
|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                               |                |                                | से/From                       | तक/To |                                 |                                                     |
| 1                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |
| 2                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |
| 3                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |
| 4                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |
| 5                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |
| 6                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |
| 7                |                               |                |                                |                               |       |                                 |                                                     |

(टिप्पणी/Note: स्थानांतरण की गणना हेतु एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छः मास होनी चाहिए। Period of posting/  
stay at a place must be at least six months for the purpose of transfer-count.)

### अभिभावक/संरक्षक द्वारा उद्धोषणा /Undertaking by the Parent/Guardian

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी स्तर पर (प्रवेश के समय अथवा बाद में) गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय  
विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्राधिकारी से कोई अपील नहीं की जाएगी।

I know that if the above-mentioned facts are found incorrect at any stage (at the time of  
admission or later), my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.  
No appeal will be made by me to any Authority in this regard.

माता-पिता के हस्ताक्षर

Signature of Parent

### प्रति-हस्ताक्षर/Countersigned

मैं, .....(नाम) .....(पदनाम).....(कार्यालय),  
एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है, व सही पाया गया है।

I,.....(Name).....(Designation).....  
(Office), do hereby certify that the particulars given in above, have been authenticated  
by the records held in the office and found correct.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान/Place.....

Signature of Head of the Office

दिनांक/Date.....

(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या/Complete Address and telephone number of the  
office:.....  
.....

**सेवा प्रमाण-पत्र/ SERVICE CERTIFICATE**  
**(केन्द्र सरकार/Central Government)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पद.....  
.....कार्यालय/मंत्रालय में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल/एस एस बी/असम रायफ़ल्स/आई टी बी पी/सीमा सुरक्षा बल एन एस जी/एस पी जी/एस पी जी सी आई एस एफ़/डी आर डी ओ/अखिल भारतीय सेवा/केन्द्र सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से (.....% सरकारी अंश का प्रतिशत) केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवाएँ अस्थानांतरणीय/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....  
is working in the office/ Ministry of..... He/She is a regular employee of Defence Service/ITBP/ CRPF/ BSF/ NSG/ SPG/ CISF/ SSB/ Assam Rifles/ DRDO/ Central Government/AIS/Autonomous Body/ Public Sector Undertaking fully financed/ partially financed (.....% percentage of Govt. share) by Central Government and his/ her services are non-transferable/ transferable anywhere in India.

स्थान/Place.....  
दिनांक/Date.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या: .....  
Complete Address and telephone number of the office: .....  
.....

**सेवा प्रमाण-पत्र/ SERVICE CERTIFICATE**  
**(राज्य सरकार/State Government)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पद.....  
.....कार्यालय/मंत्रालय/राज्य सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से (.....% अंश का प्रतिशत) राज्य सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं तथा उनकी सेवाएँ अस्थानांतरणीय/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....  
is working as a regular employee in the office/ Ministry of..... /Autonomous Body/PSU fully financed/partially financed (.....% percentage of Govt. share) by the State Government and his/ her services are non-transferable/ transferable anywhere in the State.

स्थान/Place.....  
दिनांक/Date.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या/ Complete Address and telephone number of the office: .....  
.....

## सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र/DIED IN HARNESS CERTIFICATE

(केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Government Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी .....स्वर्गीय श्री/श्रीमती  
.....के पुत्र/पुत्री हैं जो .....  
(कार्यालय/विभाग) में सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक .....को हो गया था।

Certified that Master/Miss..... is the son/ daughter of  
Late Shri/Smt..... who was a regular employee of  
.....(Office/Department) and he/she died in harness  
(while in service) on .....(date).

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation & Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या: .....

Complete Address and telephone number of the office: .....

.....

\*\*\*\*\*



## प्रवेश पंजीकरण पावती/Receipt of Registration for Admission

केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya.....

पंजीकरण संख्या/Registration No.....

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए (बच्चे का नाम)....., कक्षा ..... में प्रवेश हेतु पंजीकरण-प्रपत्र  
दिनांक..... को अभिभावक/संरक्षक (नाम) .....से प्राप्त हुआ।

नोट: इस प्रपत्र का जमा होना प्रवेश की गारंटी नहीं देता है।

For the academic session 2026-27, the Registration Form for admission of  
(Child's Name) .....to Class ..... was received on  
(Date).....from the parent/guardian [Name].....

Note: Submission of this form does not guarantee admission.

हस्ताक्षर एवं मोहर  
(प्राचार्य / Principal)

दिनांक/Date:

पृष्ठ संख्या/Page 4 of 4